

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5141

सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

गुजरात में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु योजनाएं

†5141. श्री सी.आर. पाटिल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गुजरात में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विश्व स्तर पर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने वाले हैं; और
- (ग) विश्व स्तर पर वन्यजीव पर्यटन और साहसिक पर्यटन के विकास के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात राज्य में पर्यटन सम्बन्धी अवसंरचना के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन' तथा 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन' योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की है। गुजरात राज्य में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड-लाइन के तहत जारी अभियानों के माध्यम से देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करता है। मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी संवर्धन कार्य किया जाता है। विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय वैश्विक रूप से भारतीय पर्यटन के संवर्धन के लिए अनेक कार्यकलाप करते हैं।

(ग): पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु निश पर्यटन उत्पाद के रूप में अभिज्ञात किया है। पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटरों के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो सभी अधिप्रमाणित एडवेंचर टूर ऑपरेटरों के लिए खुली एक स्वैच्छिक योजना है। पर्यटन मंत्रालय ने वन्यजीव परिपथ को स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत पर्यटन परिपथों के विकास के लिए अभिज्ञात थीमों में शामिल किया है। स्वदेश

दर्शन योजना के एक हिस्से के रूप में उक्त थीम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

- i. मध्य प्रदेश में पन्ना- मुकुंदपुर- संजय- दुबरी- बांधवगढ़- कान्हा- मुक्की- पेंच में परिपथ का विकास।
- ii. असम में मानस- प्रोबितोरा- नमेरी- काजीरंगा- डिब्रू- सैखोवा का विकास

पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपनी अतुल्य भारत वेबसाइट, मीडिया अभियानों और विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों की भागीदारी से/द्वारा आयोजित संवर्धनात्मक आयोजनों के माध्यम से वैश्विक रूप से वन्यजीव एवं एडवेंचर पर्यटन दोनों का संवर्धन करता है।

अनुबंध

गुजरात में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु योजनाएं के सम्बन्ध में दिनांक 04.04.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +5141 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	परिपथ	स्वीकृत वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	गुजरात	विरासत परिपथ	2016-17	अहमदाबाद - राजकोट-पोरबंदर-बारडोली- दांडी का विकास	58.42
2.	गुजरात	विरासत परिपथ	2016-17	वडनगर और मोढेरा का विकास।	91.11
3.	गुजरात	बौद्ध परिपथ	2017-18	जूनागढ़ - गिर सोमनाथ-भरूच-कच्छ-भावनगर- राजकोट- मेहसाणा का विकास	26.68

प्रशाद योजना

(करोड़ रु. में)

क. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि
1.	गुजरात	द्वारका का विकास	2016-17	13.08
2.		सोमनाथ में तीर्थस्थल सुविधाएं	2016-17	45.36
3.		प्रशाद योजना के अन्तर्गत सोमनाथ में प्रोमिनेड का विकास	2018-19	47.12
4.		सोमनाथ, गुजरात में क्यू मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ तीर्थयात्रा प्लाजा का विकास	2021-22	49.97
